

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2014 (आश्विन 19, 1936)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2014 (ASVINA 19, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली — 110003, दिनांक 15 सितम्बर 2014

संख्या: ओ.दो.3876/11—कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. संध्या एन0एस0, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला-8644, कम्पोजिट अस्पताल, के.रि.पु.बल पल्लिपुरम द्वारा दिनांक 31/07/2014 (अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 31/07/2014 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 16 सितम्बर 2014

सं. ओ.दो.3677/2014—कार्मिक—डी.ए.—1—भारत सरकार ने श्री रमेश चन्द तायल, भा0पु0से0 (ए0एम0 : 80) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु0 75,500—80,000/— के वेतन स्केल में विशेष महानिदेशक, जम्मू के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) की तिथि 31.08.2016 तक या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने विशेष महानिदेशक, के0रि0पु0बल, जम्मू का कार्यभार दिनांक 08/09/2014 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 18 सितम्बर 2014

सं. डी.एक.10/14—कार्मिक.डी0ए0आठ—उप सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1760/XX(I)-2014-2(5)2014 दिनांक 13/08/2014 तथा गृह मंत्रालय के टिप्पणी दिनांक 28/08/2014, के तहत श्री घमेन्द्र सिंह कमान्डेन्ट (इरला-4048), आसूचना शाखा महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उत्तराखण्ड पुलिस में 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप इनकी सेवाएँ दिनांक 15/09/2014 (अप्र0) से महानिदेशक उत्तराखण्ड पुलिस के निपटान (disposal) पर रहेंगी।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 सितम्बर 2014

संख्या-पी.सात-1/2014—मंत्रा0—सूबेदार मेजर(स्टेनो) से सहायक कमान्डेन्ट(निजी सहायक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार (इरला-10350) ने दिनांक 25/08/2014(पू0) को प्रशिक्षण महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली में सहायक कमान्डेन्ट(निजी सहायक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सतपाल कपूर
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 14 नवम्बर 2013

सं. प्रशा.1/900—VI/2013-14/1419—महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 14.11.2013 के आदेश के तहत श्री रंजीत कुमार दास, निजी सहायक को रु. 9,300—34,800/— जोड़ ग्रेड पे रु. 4,600/— के पे बैंड—।। में निजी सचिव के पद पर प्रभावी दिनांक 14.11.2013 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया जाता है।

पदोन्नति पर, उनका वेतन एफ. आर. 22— I, (ए)(I) के तहत निर्धारित होगा और इसके लिए वे अपने पदोन्नति के दिनांक से एक महीने के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

वानलालछुअंगा
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

दिनांक 20 दिसम्बर 2013

सं. प्रशा./ I 1038—XXVIII/2013—2014/1958—महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ने सहर्ष निम्नलिखित तीन सहायक लेखा अधिकारियों को लेखा अधिकारी के रूप में रु. 9,300—34,800/— जोड़ ग्रेड पे रु. 5,400/— के पे बैंड —।। में प्रभावी दिनांक 01.01.2014 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया है:—

क्र. सं.	श्री/श्रीमती
1.	राजेंद्र प्रसाद
2.	विश्वनाथ बंधोपाध्याय
3.	महितोष विश्वास

प्राधिकार— महालेखाकार का आदेश दिनांक 18.12.2013

वानलालछुअंगा
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

सं. प्रशा. I/1366-II/2013-2014/1956—महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ने सहर्ष निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्चतर प्रकार्यात्मक श्रेणी में रु. 15,600-39,100/- जोड़ ग्रेड पे रु. 5,400/- के पे बैंड-III में प्रभावी दिनांक 01.01.2014 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया है:—

क्र. सं.	श्री/श्रीमती
1.	तपन कुमार कर
2.	श्यामल कुमार सरकार
3.	अरुण कुमार मुखोपाध्याय
4.	दीनबन्धु चक्रवर्ती
5.	नंदिता मुंशी
6.	नंदलाल रक्षित

प्राधिकार— महालेखाकार का आदेश दिनांक 18.12.2013

वानलालछुअंगा
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

दिनांक 23 दिसम्बर 2013

सं. प्रशा. I/1034-XXXII/2013-14/1961—महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 18.12.2013 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (फरवरी/मार्च 2013) पूरक परीक्षा उत्तीर्ण निजी सहायक श्रीमती मंटु साधुखान एवं एस.ए.एस. (फरवरी/मार्च 2013) पूरक परीक्षा उत्तीर्ण वरिष्ठ लेखाकार श्री प्रवीर मुर्मू को सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में, रु. 9,300-34,800/- जोड़ ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड में प्रभावी दिनांक 01.01.2014 (पूर्वाह्न) या इस कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में प्रभार लेने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया जाता है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

वानलालछुअंगा
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

दिनांक 30 जनवरी 2014

सं. प्रशा. I/1034-XXXII/2013-14/2881—महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 29.01.2014 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (फरवरी/मार्च 2013) पूरक परीक्षा उत्तीर्ण वरिष्ठ लेखाकार श्री आलोक रंजन मैत्रा को सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में, रु. 9,300-34,800/- जोड़ ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड में प्रभावी दिनांक 01.02.2014 (पूर्वाह्न) या इस कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में प्रभार लेने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया जाता है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

वानलालछुअंगा
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

कोलकाता-700001, दिनांक 8 जुलाई 2014

सं. प्रशा. I/1034-XXXII/2014-15/625—महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 07.07.2014 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (फरवरी/मार्च 2013) पूरक परीक्षा उत्तीर्ण वरिष्ठ लेखाकार श्री अक्षय मानकी को सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में, रु. 9,300-34,800/- जोड़ ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड में प्रभावी दिनांक 08.07.2014 (पूर्वाह्न) या इस कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में प्रभार लेने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

मुकुट मुखर्जी
उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रधान महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय,

आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना

हैदराबाद - 500 004, दिनांक 12 सितम्बर 2014

सं. प्रशा.1/पदो./8/32/एफ.59/2014-2015/39—श्री. हनुमंत राव के-3, इस कार्यालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, 12.05.2014 को निधन हो गए ।

अनीता बालाकृष्णा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.1/पदो./8/32/एफ.59/2014-2015/40—प्रधान महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.ले.प.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद निम्नलिखित व. लेखापरीक्षा अधिकारी को उनके नाम के सामने दी गयी तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	सीतारमय्या एम २	31.07.2014 अपराह्न
2.	गोविंदराजस्वामी वी	31.07.2014 अपराह्न
3.	सईद घौस मोहिद्दीन	31.08.2014 अपराह्न
4.	मीर शुजात अली नासिर	31.08.2014 अपराह्न

अनीता बालाकृष्णा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.1/पदो./5-4/एफ.60/2014-2015/41—प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित सहायक.लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को '₹ 5400/- के ग्रेड वेतन सहित' ₹ 9300-34800 के वेतन बैंड-2 के स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा:—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु./सु.)	का.आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्रीनिवास राव एस	46/02.07.2014	03.07.2014 FN

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

कर्मचारी वेतन के पुनः निर्धारण के पात्र नहीं हैं क्योंकि एसीपी के तहत उन्हें पहले ही '₹ 5400 के ग्रेड पे के साथ' ₹ 9300-34800 के पे बैंड-2 में वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है।

अनीता बालाकृष्णा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा. I/पदो./5-4/एफ.61/2014-2015/42—प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) को रु. 5400/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 15600-39100 के वेतन बैंड.3 के स्थानापन्न व. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा :--

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु./सु.)	का.आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	अभिषेक एम	27/13.05.2014	13.05.2014 AN
2.	सेषा साई वी वी	45/01.07.2014	01.07.2014 FN
3.	देवेंद्र कुमार आर	45/01.07.2014	01.07.2014 FN

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के दिनांक 26.09.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 1/80-स्था.(पी.1) और दिनांक 08.02.1983 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ. 13/26/82-स्था.(पी.1) के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प दें।

अनीता बालाकृष्णा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-85, दिनांक 17 सितम्बर 2014

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III (खंड.-II)/2014/10979—अध्यक्ष, पी. एवं सी.डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कुमारी शबाना अब्दुल गणी पीरजादा, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 03.09.2014 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियमित रु. से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 17 सितम्बर 2014

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(199)/2014.भर्ती/1775----राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में उनकी पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक तथा ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1-	श्री पी.मनोहरन	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	37,400-67,000/-	8,900/-	01.07.2014 (पूर्वाह्न)
2-	श्री संजय कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	37,400-67,000/-	8,900/-	01.07.2014 (पूर्वाह्न)
3-	श्री आर.बालाजी	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	37,400-67,000/-	8,900/-	14.07.2014 (पूर्वाह्न)

क्र.सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
4-	श्री अरविन्द वी.श्रॉफ	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	37,400-67,000/-	8,900/-	01.07.2014 (पूर्वाहन)
5-	श्री आर.एस.सोहोनी	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	37,400-67,000/-	8,900/-	01.07.2014 (पूर्वाहन)
6-	श्री निशांत किशोर राय	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	37,400-67,000/-	8,900/-	01.07.2014 (पूर्वाहन)

बी. जगन मोहन राव
प्रशासन अधिकारी-III

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 11 सितम्बर 2014

सं.वी.ई.सी.सी./ पदोन्नति (जुलाई)/2014/2596---राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी इसी केन्द्र में वेतन बैंड 4 रु. 37,400—67,000/- तथा ग्रेड वेतन रु. 8,900/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (जी) के पद पर जुलाई 01, 2014, के पूर्वाहन से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
1	श्री राम नारायण सिंगाराजु	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ़)	पी.बी.-4 रु. 37,400-67,000/- +जी.पी. रु 8,700/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी-III

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 सितम्बर 2014

सं. करं/दिल्ली/एलएलपी/रूल 37(1)/7448—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37 की उप धारा (1) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर निम्नलिखित एल एल पी के नाम इनके प्रतिकूल काल दर्शित न किये गए तो रजिस्टर से काट दी जाएंगी और निम्न एलएलपी विघटित कर दी जाएंगी:—

SL No.	CIN	COMPANY NAME
1	AAA-0494	शिवमजीत टेक एलएलपी
2	AAB-0449	ओद्विश गारमैट्स एलएलपी
3	AAA-3682	लेमन स्क्वायर एलएलपी
4	AAA-3682	लेमन स्क्वायर एलएलपी
5	AAA-3431	सी वी एफ कम्युनिकेशंस एलएलपी
6	AAA-3431	सी वी एफ कम्युनिकेशंस एलएलपी
7	AAA-3431	सी वी एफ कम्युनिकेशंस एलएलपी
8	AAA-2386	फ्रीनिक्स अद्विसेंस एलएलपी

SL No.	CIN	COMPANY NAME
9	AAA-1655	ग्रीन्स एंड बीन्स एलएलपी
10	AAA-1655	ग्रीन्स एंड बीन्स एलएलपी
11	AAA-8240	आई पी बी ई कैपिटल अड्विसेस एलएलपी
12	AAA-6654	अरिष्टत माइनिंग एलएलपी
13	AAA-6666	ऑरनॉ माइनिंग एलएलपी
14	AAA-6656	विलल्स्टोने माइनिंग एलएलपी

त्याईला

सहायक कंपनी पंजीयक

एन सी टी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 सितम्बर 2014

सं. कर/दिल्ली/एलएलपी/रूल 37(1)/7548— एलएलपी नियम 2009 के नियम 37 की उप धारा (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर निम्नलिखित एल एल पी के नाम इनके प्रतिकूल काल दर्शित न किये गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और निम्न एलएलपी विघटित कर दी जाएंगी :-

SL. NO.	CIN	COMPANY NAME
1	AAA-3435	एम वी एफ कम्युनिकेशंस
2	AAA-3504	सेठना एस एम एस सोलूशन्स
3	AAA-3501	सुधीर एस एम एस सोलूशन्स
4	AAA-5523	बंडलबाज़ी ऑनलाइन रिटेल सप्लिएर्स
5	AAA-8855	अगस्त वर्ड्स अडवाइसर्स
6	AAA-3450	आई पी डी साइन स्टूडियो
7	AAA-3955	टेक्स्ट कम्युनिकेशंस
8	AAA-9298	ब्लॉसम माइनिंग
9	AAA-9178	नीओनेट माइनिंग
10	AAA-9175	एकॉर्ड माइनिंग
11	AAA-4574	मोबिकनेक्सओन सर्विसेस
12	AAB-0814	बोनस एवंतस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स
13	AAA-1847	नवीसि ओन आइडियाज

SL. NO.	CIN	COMPANY NAME
14	AAA-3505	चन्द्रमा स म स सोल्यूशन्स
15	AAA-1240	ब्लैकस्वान एडवाइजरी
16	AAA-4680	इसेन वेंचर्स
17	AAA-1380	राम किशन बिल्डटेक
18	AAA-1374	वी न जी इंफ्रास्ट्रक्चर
19	AAA-0251	बाइनरी एजुकेशन इंडिया
20	AAA-3430	टी वी फ कम्युनिकेशंस
21	AAA-4258	मेटल विंग कम्युनिकेशंस
22	AAA-3436	ओशन वेव कम्युनिकेशंस
23	AAA-3317	आई पी कैपिटल अडवाएसर्स

त्याईला

सहायक कंपनी पंजीयक

एन सी टी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 25 सितम्बर 2014

सं०: 560(5)/3905—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन संख्या	एस आर एन संख्या
1	निशिमैन बुल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC043491	B82669706
2	वेलसेट लैब क्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2008PTC034523	B22076335
3	न्यूट्रीसेस एग्रो फूड्स यू पी प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2009PTC037900	B58054701
4	ओमसाई शेलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2008PTC036481	B88551411
5	बी ए वी कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC050907	B88489836
6	सुरुपा बिजनेस वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U19115UP2011PTC044793	B89010565
7	बेस्ट पार्टनर्स सैंडल्स प्राइवेट लिमिटेड	U19115UP2011PTC045226	B89010219
8	जे आर फ़ैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U17200UP2010PTC041431	B90109695
9	पीर्यस एलाइन्स कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2008PLC036170	B76774793
10	लकीइशू इन्फ़ासिटी कान्सेप्ट लिमिटेड	U45400UP2011PLC046436	C01994474

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन संख्या	एस आर एन संख्या
11	एसीडीआई वोका सोशल डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन	U85300UP2010NPL042125	B76356781
12	मेरठ मेडीरिसर्च फाउन्डेशन	U85191UP2013NPL054428	B77732030

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड,

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोयम्बतूर - 641005, दिनांक 24 सितम्बर 2014

सं. आरओसी/सीबीई/560(5)/2014 - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यहां निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	3507	मैसर्स विगणेश पेप्पर मिलस प्राइवेट लिमिटेड
2	5239	मैसर्स मइलसामी चिटस प्राइवेट लिमिटेड
3	5268	मैसर्स परमेश एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
4	10330	मैसर्स मनी एक्सप्रस फोरक्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
5	10820	मैसर्स वीणा पेकेजींग प्राइवेट लिमिटेड
6	11941	मैसर्स अलैड साफ्टवेयर सोल्यूशन्स ग्रुप इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
7	13474	मैसर्स के.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
8	14574	मैसर्स सेलम एरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
9	14694	मैसर्स रिफ्लेक्स टेक्नोस्ट्रीम इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
10	14744	मैसर्स होसूर एरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
11	14756	मैसर्स वेल्लूर एरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
12	15171	मैसर्स तिरुमाल अगरो मरचन्ट प्राइवेट लिमिटेड
13	15746	मैसर्स निसिता हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	16193	मैसर्स जेआर एनरजी अन्ड पवर इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
15	17480	मैसर्स डेक रैट डेवलप्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	18324	मैसर्स आरवीएस बाहुलस प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
17	18694	मैसर्स सोलार ग्रानिमारमो प्राइवेट लिमिटेड
18	19549	मैसर्स करकोरम सिस्टमस अन्ड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

वी.पी. शिवादासन
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

एलएलपी नियम, 2009 नियम 37(3) के तहत नोटिस

बंगलूरु - 34, दिनांक 22 सितंबर 2014

सं. आर.ओ.सी.बी / एलएलपी / बंद हड़ताली (एसपी) / 2014--नोटिस एतद्वारा एलएलपी नियम, 2009 नियम 37(3) के अनुसार दिया जाता है, निम्नलिखित एलएलपी (जो आवेदन फार्म-24 में एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत रजिस्ट्रार को नाम के हड़ताली के लिए किया जाता है) निम्नलिखित एलएलपी रजिस्ट्रार से काटा गया है और कहा एलएलपी सरकारी राजपत्र में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी भंग कर रहे हैं :--

Sl. No	LLPIN	Name
1	AAA-6144	ब्लू याच मोबाइल एण्ड वेब अप्लिकेशन्स ल्लप
2	AAA-1918	अप्लिकेशन एण्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट गुप्स ल्लप
3	AAA-2716	गोल्डेन यियर्ज लाइफस्टाइल सेर्विसेस ल्लप
4	AAA-3590	एस सी एम एस एनर्जी ऑफिशियल एण्ड अडवाइसरी सेर्विसेस ल्लप
5	AAB-0609	ज़रमांक ट्रेडिंग ल्लप
6	AAA-8275	एकोपोइंट एन्वायरन्मेंटल सेर्विसेस ल्लप
7	AAA-3215	सिग्मा सनएनेर्जी सिस्टम्स ल्लप

ए. सेहर पोन्नराज
डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 22nd September 2014

No. F. 20/2014/SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to review the promotion of Shri S. Sivaramakrishna on trial and ad hoc basis as Assistant Registrar (Non-shorthand) and promoted him as Assistant Registrar (Non-Shorthand) on regular basis with effect from 19-09-2014.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi – 110003, the 15th September 2014

No. O.II.3876/11-Pers-MOs—Consequent on acceptance of her resignation by the competent authority, Dr. (Mrs) Sandhya N.S. Medical Officer (Asstt. Comdt.), IRLA-8644 of CH CRPF, Pallipuram, CRPF relinquished the charge of her post on the afternoon of 31st July, 2014. Accordingly, her name is deleted from the rolls of the Force wef. 31.07.2014(AN).

M. C. PANWAR
DIGP (Pers)

The 16th September 2014

No. O.II.3677/2014-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Ramesh Chand Tayal, IPS (AM : 80) as Special Director General (Spl. DG), Jammu in CRPF on deputation basis in the Pay scale of Rs. 75,500-80,000/- with effect from the date of taking over the charge of the post and till the date of his superannuation on 31/08/2016 or until further orders, whichever event takes place earlier.

02. The officer accordingly took over the charge of the post of Special Director General, CRPF, Jammu on the forenoon of 08/09/2014.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 18th September 2014

No. D.I.10/2014- Pers-DA-8—Consequent on his selection for deputation to Uttarakhand Police for a period of 03 years in the pay scale of PB-4 Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- as per existing terms and conditions of deputation by MHA vide their noting dated 28/08/2014 and Additional Secretary, Uttarkhand State Govt letter No. 1760/XX(I)-2014-2(5)2014 dated 12/08/2014, services in respect of Shri Dharmendra Singh, Comdt (IRLA-4048) CRPF is placed at the disposal of DGP Uttarakhand w.e.f. 15/09/2014 (AN).

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

New Delhi-110 003, the 16th September 2014

No. P.VII-1/2014-Min.—Consequent on his promotion from Subedar Major (Steno) to the post of Assistant Commandant (Private Secretary), Shri Ashok Kumar (IRLA-10350), has taken over charge as Assistant Commandant (Private Secretary) at Training Directorate, Central Reserve Police Force, New Delhi on 25/08/2014(FN).

SATPAL KAPOOR
DIG (Organisation)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 14th November 2013

No. Admn.I/900-VI/2013-14/1419—Under orders of Accountant General (A&E), West Bengal dated 14.11.2013, Shri Ranjit Kumar Das, Personal Assistant is promoted to the post of Private Secretary in the Pay Band -2, Rs. 9300-34800/- + Grade Pay of Rs. 4600/- with effect from 14.11.2013 (FN) or the date on which he actually takes over charge as Private Secretary, whichever is later.

On promotion his pay will be fixed under FR 22 I(a) (i) for which he may exercise his option within one month from the date of his promotion.

VANLALCHHUANGA
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

The 20th December 2013

No. Admn.I/1038-XXVIII /2013-2014/1958—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote the following three Asstt. Accounts Officers as Accounts Officer in the Pay Band 2 of Rs. 9,300- 34,800/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 01.01.2014 (FN) or the date of their taking over charge, whichever is later.

Sl. No.	S/Shri
1.	Rajendra Prasad
2.	Biswanath Bandyopadhyay
3.	Mahitosh Biswas

[Authority: A.G's order dated 18.12.2013]

VANLALCHHUANGA
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

No. Admn.I/1366-II/2013-2014/1956—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote the following Accounts Officers to the higher functional Grade of Sr. Accounts Officer in the Pay Band 3 of Rs. 15,600- 39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 01.01.2014 (FN) or the date of their taking over charge, whichever is later.

Sl. No.	S/Shri
1.	Tapan Kumar Kar
2.	Shyamal Kumar Sarkar
3.	Arun Kumar Mukhopadhyay
4.	Dinabandhu Chakraborty
5.	Nandita Munshi
6.	Nandalal Rakshit

[Authority: A.G's Order dated 18.12.2013]

VANLALCHHUANGA
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

The 23rd December 2013

No. Admn.I/1034-XXXII/2013-14/1961—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 18.12.2013 Smt Mantu Sadhukhan, SAS (February/March, 2013) Supplementary Examination passed PA and Shri Prabir Murmu, SAS (February/March, 2013) Supplementary Examination passed Sr. Accountant are promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from 01.01.2014(FN) or the date of taking over their charges in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

Posting order will be issued separately.

VANLALCHHUANGA
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

The 30th January 2014

No. Admn.I/1034-XXXII/2013-14/2881—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 29.01.2014 Shri Alope Ranjan Maitra, S.A.S—(February/March, 2013) Supplementary Examination passed Sr. Accountant is promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay of Rs.4800/- with effect from 01.02.2014(FN) or the date of taking over his charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

Posting order will be issued separately.

VANLALCHHUANGA
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

Kolkata-700 001, the 8th July 2014

No.Admn.I/1034-XXXII/2013-14/625—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 07.07.2014 Shri Akshay Manki, Supplementary S.A.S Examination –February/March, 2013 passed Sr. Accountant is promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay of Rs.4800/- with effect from 08.07.2014(FN) or the date of taking over charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

Posting order will be issued separately.

M.MUKHERJEE
Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (G&SSA)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA

Hyderabad-500 004, the 12th September 2014

No. Admn-I/Prom./8-132/F. 59/2014-2015/39—Sri. Hanumantha Rao K-III, Senior Audit Officer of this office expired on 12.05.2014.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Deputy Accountant General
(Administration)

No. Admn-I/Prom./8-132/F. 59/2014-2015/40—Principal Accountant General (G&SSA), Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad hereby declares the retirement of the following Sr. Audit Officers (Civil) with effect from the date mentioned against their names :-

Sl. No.	Name of the Officer (S/Sri/Smt.)	Date of Retirement
1.	Seetharamaiah M – II	31.07.2014 AN
2.	Govinda Rajaswamy V	31.07.2014 AN
3.	Syed Ghouse Mohiddin	31.08.2014 AN
4.	Mir Shujat Ali Nasir	31.08.2014 AN

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Deputy Accountant General
(Administration)

No. Admn-I/Prom./5-4/F. 60/2014-2015/41—Principal Accountant General is pleased to promote the following Assistant Audit Officer (Civil) to officiate as Audit Officer (Civil) in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 5400/- with effect from the date mentioned against his name :-

Sl No	Name of the Officer (Sri./Smt./Ms.)	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
1.	S. Srinivasa Rao	46/02.07.2014	03.07.2014 FN

The above promotion is ordered without prejudice to the claims of his seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officer is not eligible for further fixation of pay as he was already allowed financial up-gradation under MACP Scheme, in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 5400/-.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Deputy Accountant General
(Administration)

No. Admn-I/Prom./5-4/F. 61/2014-2015/42—Principal Accountant General is pleased to promote the following Audit Officers (Civil) to officiate as Sr. Audit Officer (Civil) in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 5400/- with effect from the date mentioned against their names :-

Sl No	Name of the Officer (Sri./Smt./Ms.)	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
1.	Abhishek M	27/13.05.2014	13.05.2014 AN
2.	Sesha Sai V.V.	45/01.07.2014	01.07.2014 FN
3.	Devender Kumar R	45/01.07.2014	01.07.2014 FN

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officials should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their taking over charge in terms of Government of India O.M.No. F/7/1/80-Estt. (P.I) dated 26.09.1981 and F.13/26/82-Estt. (P.I) dated 08.02.1983 as amended from time to time.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Deputy Accountant General
(Administration)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 17th September 2014

No. PD/4(6)/2007-R-III(Vol.II)/2014/10979—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Kum. Shabana Abdul Gani Peerzada, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary(Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 03.09.2014 in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 17th September 2014

No.DCSEM/A/2(199)/2014-Rectt./1775—The President is pleased to appoint the following Officers in the Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy, Mumbai on their promotion to the grade and date mentioned against each until further orders :—

S/NO.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs)	Grade Pay (Rs)	Date of Assumption of Charge
1.	Shri P Manoharan	SO/G	Rs. 37400-67000	8900	01/07/2014 (FN)
2.	Shri Sanjay Kumar	SO/G	Rs. 37400-67000	8900	01/07/2014 (FN)
3.	Shri R Balaji	SO/G	Rs. 37400-67000	8900	14/07/2014(FN)

S/NO.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs)	Grade Pay (Rs)	Date of Assumption of Charge
4.	Shri Arvind V Shroff	SO/G	Rs. 37400-67000	8900	01/07/2014 (FN)
5.	Shri R S Sohoni	SO/G	Rs. 37400-67000	8900	01/07/2014 (FN)
6.	Shri Nishant Kishore Rai	SO/G	Rs. 37400-67000	8900	01/07/2014 (FN)

B. JAGAN MOHAN RAO
Administrative Officer-III

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata- 700 064, the 11th September 2014

No.VECC/Prom.(July)/2014/2596—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (G) in the Pay Band 4 of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8900/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 1, 2014, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Shri Rama Narayana Singaraju	Scientific Officer (F)	PB 4 Rs.37400-67000 + GP Rs. 8700/-

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

New Delhi-110019, the 22nd September 2014

No. Roc/Delhi/LLP/Rule 37(1)/7448—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the following LLPs unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved. :-

SL No.	CIN	COMPANY NAME
1	AAA-0494	SHIVAMJEET TEK LLP
2	AAB-0449	ODDISH GARMENTS LLP
3	AAA-3682	LEMON SQUARE LLP
4	AAA-3682	LEMON SQUARE LLP
5	AAA-3431	CVF COMMUNICATIONS LLP
6	AAA-3431	CVF COMMUNICATIONS LLP
7	AAA-3431	CVF COMMUNICATIONS LLP
8	AAA-2386	PHOENIX ADVISORS LLP
9	AAA-1655	GREENS AND BEANS LLP
10	AAA-1655	GREENS AND BEANS LLP

SL No.	CIN	COMPANY NAME
11	AAA-8240	IPBE CAPITAL ADVISORS LLP
12	AAA-6654	ARISHTAT MINING LLP
13	AAA-6666	ORANOS MINING LLP
14	AAA-6656	WILLSTONE MINING LLP

TIAINLA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

New Delhi-110019, the 25th September 2014

No. Roc/Delhi/LLP/Rule 37(1)/7548—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the following LLPs unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved. :-

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
1	AAA-3435	MVF COMMUNICATIONS
2	AAA-3504	SETHNA SMS SOLUTIONS
3	AAA-3501	SUDHIR SMS SOLUTIONS
4	AAA-5523	BUNDLEBAAZI ONLINE RETAIL SUPPLIERS
5	AAA-8855	AUGUST WORDS EDUVISORS
6	AAA-3450	IP DESIGN STUDIO
7	AAA-3955	TEXT COMMUNICATIONS
8	AAA-9298	BLOSSOM MINING
9	AAA-9178	NEONET MINING
10	AAA-9175	ACCORD MINING
11	AAA-4574	MOBICONEXION SERVICES
12	AAB-0814	BONUS EVENTUS PROPERTY CONSULTANTS
13	AAA-1847	NVYSION IDEAS
14	AAA-3505	CHANDRMA SMS SOLUTIONS
15	AAA-1240	BLACKSWAN ADVISORY
16	AAA-4680	ESSEN VENTURES
17	AAA-1380	RAM KISHAN BUILDTECH
18	AAA-1374	VNG INFRASTRUCTURE
19	AAA-0251	BINARY EDUCATION INDIA
20	AAA-3430	TVF COMMUNICATIONS
21	AAA-4258	METAL WING COMMUNICATIONS
22	AAA-3436	OCEAN WAVE COMMUNICATIONS
23	AAA-3317	IP CAPITAL ADVISORS

TIAINLA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 25th September 2014

No. LC/560(5)/3905—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :-

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
1	NISHMAN BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC043491	B82669706
2	WELSET LAB CREATIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2008PTC034523	B22076335
3	NUTRICIS AGRO FOODS (UP) PRIVATE LIMITED	U15122UP2009PTC037900	B58054701
4	OM SAI SHELTERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2008PTC036481	B88551411
5	B.A.V. COLONISERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC050907	B88489836
6	SURUPA BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED	U19115UP2011PTC044793	B89010565
7	BEST PARTNER SANDALS PRIVATE LIMITED	U19115UP2011PTC045226	B89010219
8	J.R. FABTEX PRIVATE LIMITED	U17200UP2010PTC041431	B90109695
9	PEERS ALLIANCE CORPORATION LIMITED	U74900UP2008PLC036170	B76774793
10	LUCKEYISHU INFRACITY CONCEPT LIMITED	U45400UP2011PLC046436	C01994474
11	ACDI VOCA SOCIAL DEVELOPMENT ORGANISATION	U85300UP2010NPL042125	B76356781
12	MEERUT MEDIRESEARCH FOUNDATION	U85191UP2013NPL054428	B77732030

S.P.KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Coimbatore – 641005, the 24th September 2014

No. ROC/CBE/ /560(5) 2014— Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:-

Sl.No	Regn.No.	Name of the Companies
1	3507	M/s.Vignesh Paper Mills Private Limited
2	5239	M/s. Mylswamy Chits Private Limited
3	5268	M/s. Paramesh Enterprises Private Limited
4	10330	M/s. Money Express Forex India Private Limited
5	10820	M/s. Veenaa Packaging Private Limited
6	11941	M/s. Allied Software Solutions Group India Private Limited
7	13474	M/s. K.R.B.Infrastructure (India) Private Limited
8	14574	M/s. Salem Airport Private Limited
9	14694	M/s. Refulgence Technostream India Private Limited
10	14744	M/s. Hosur Airport Private Limited
11	14756	M/s. Vellore Airport Private Limited

Sl.No	Regn.No.	Name of the Companies
12	15171	M/s. Thirumaal Agro Merchant Private Limited
13	15746	M/s. Nishita Hospitals Private Limited
14	16193	M/s. JR Energy and Power India Private Limited
15	17480	M/s. Deck Right Developers Private Limited
16	18324	M/s. RVS Bottles Private Limited
17	18694	M/s. Solar Granimarmo Private Limited
18	19549	M/s. Karakoram Systems and Solutions Private Limited

V.P. SIVADASAN
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

Notice under Rule 37(3) of LLP Rule, 2009

Bangalore – 34, the 22nd September 2014

No. ROCB//LLP/STRIKING OFF (SP)/2014—Notice is hereby given pursuant to Rule-37(3) of LLP Rules, 2009 that the names of the following LLPs (which have made application in form-24 to the Registrar under LLP Act 2008 for striking of name) has been struck off from the Register and the said LLPs are dissolved w.e.f. the date of publication of this notice in official Gazette:-

Sl. No	LLPIN	LLP Name
1	AAA-6144	BLUE YACHT MOBILE AND WEB APPLICATIONS LLP
2	AAA-1918	APPLICATION AND PROPERTY MANAGEMENT GURUS LLP
3	AAA-2716	GOLDEN YEARS LIFESTYLE SERVICES LLP
4	AAA-3590	SCMS ENERGY AUDIT & ADVISORY SERVICES LLP
5	AAB-0609	ZARMANK TRADING LLP
6	AAA-8275	ECOPOINT ENVIRONMENTAL SERVICES LLP
7	AAA-3215	SIGMA SUNENERGY SYSTEMS LLP

A. SEHAR PONRAJ
Dy. Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in